



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 427]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 24, 1979/ कार्तिक 2, 1901

No 427]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 24, 1979/KARTIKA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(प्राथमिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1979

का० प्रा० 594(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अनुरोध पर, 24 अक्तूबर, 1979 से मध्य प्रदेश राज्य में, सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के सरगुजा जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एक 1-7/79-प्रार० प्रार० बी० (I)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

BANKING DIVISION

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd October, 1979

S.O. 594(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government being requested so to do by Central Bank of India, establishes with effect from the 24th October, 1979 a Regional Rural Bank in the State of

Madhya Pradesh under the name of Surguja Kshetriya Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the district of Surguja in the State of Madhya Pradesh.

[No. F. 1-7/79-RRB(I)]

का० प्रा० 595(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रयोजक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से परामर्श करके, अम्बिकापुर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है जहाँ पर कि सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एक 1-7/79-प्रार० प्रार० बी० (II)]

S.O. 595(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India by which Surguja Kshetriya Gramin Bank has been sponsored specifies Ambikapur as the place where Surguja Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-7/79-RRB(II)]

का० प्रा० 596(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976

का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एक 1-7/79-आर० आर० बी० (III)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 596(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Surguja Kshetriya Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-7/79-RRB(III)]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

(ग्रामीण आयोजना और साख कक्ष)

अधिसूचना

बम्बई, 24 अक्टूबर, 1979

क्रा०आ० 597(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय

रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निवेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

“सर्गुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर (मध्य प्रदेश)”।

[संदर्भ आर० पी० सी० सी० सं० 167/आई एन सी एल/58 (ए)-79]

मा० रामकृष्णमैया, उप-गवर्नर

#### RESERVE BANK OF INDIA CENTRAL OFFICE

(Rural Planning and Credit Cell)

#### NOTIFICATION

Bombay, the 24th October 1979

S.O. 597(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur (Madhya Pradesh)”.

[Ref. RPCC. No. 167/Incl./58(A)-79]  
M. RAMAKRISHNAYYA, Dy. Governor